

प्रेस विज्ञप्ति

थाना क्षेत्र सहजनवा में दिनांक 29.09.2020 को ग्राम कनपुरवा के समीप सड़क पर मिले युवक के शव के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 700/2020 धारा 302/201/404 IPC के अनावरण सहित दो अभियुक्त गिरफ्तार

थाना क्षेत्र सहजनवा गोरखपुर के ग्राम कनपुरवा के पास सड़क के किनारे दिनांक 29.09.2020 को अज्ञात युवक की लाश पायी गयी थी जिसकी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 700/2020 धारा 302/201/404 IPC विरुद्ध अज्ञात प्रकरण में शीघ्र अथि शीघ्र अनावरण हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा आवश्यक निर्देश दिया गया था। जिसके क्रम में श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय पुलिस अधीक्षक उत्तरी एवं श्री राहुल भाटी सहायक पुलिस अधीक्षक /क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्वेक्षण में मैं प्रभारी निरीक्षक सहजनवा संतोष कुमार यादव मय हमराहीयान के आज दिनांक 10.10.2020 को विवेचना से अभियोग उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मामूर था कि उसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्तगण को नेवास चौराहे पर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों का नाम पता पूँछा गया तो एक ने अपना नाम संदीप उर्फ विक्की गुप्ता पुत्र चन्द्रशेखर गुप्ता निवासी ग्राम डीघा बरदहिया बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर उम्र करीब 24 वर्ष तथा दूसरे ने अपना नाम राहुल कुमार पुत्र रामबचन निवासी ग्राम शिवापार पोस्ट चन्द्रधर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर उम्र करीब 21 वर्ष बताया। अभियुक्त संदीप उर्फ विक्की उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने करीब 3 वर्ष पहले बालेन्द्र से 1 लाख 67 हजार रुपया सूद ब्याज पर लिया था जो वापस नहीं दे पा रहा था जिसको बालेन्द्र बार – बार मुझसे मांग रहा था, मैं पैसा देने में असमर्थ था। इस लिए अपने मित्र राहुल को पैसे देने की लालच देकर दिनांक 28.09.2020 को बालेन्द्र को मारने का प्लान बनाया रात में अण्डे की दुकान पर ले जाकर बालेन्द्र को काफी शराब पिलाया गया, बालेन्द्र को ज्यादा नशा हो गया तो नशे की हालत में उसी की मोटर साईकिल से ले जाकर रिठुआखोर के पास स्थित कनपुरवा में सूनसान जगह पर सिर पर पीछे से छूरा से कई बार प्रहार कर मैंने व राहुल ने मिलकर बालेन्द्र की हत्या कर दिया। तथा रक्त रंजित छूरा व खून से सने अपने कपड़े को भरपही के पास स्थित पुलिया के पास स्थित झाड़ी में छिपा दिया तथा बालेन्द्र की मोटर साईकिल व मोबाइल आमी नदी में फेक दिया। अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कतल एक अदद छूरा व अभियुक्त संदीप उर्फ विक्की द्वारा पहने गये कपड़े बरामद किया गया। जिन्हे कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया तथा अभियोग का अनावरण किया गया।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. संदीप उर्फ विक्की गुप्ता पुत्र चन्द्रशेखर गुप्ता निवासी ग्राम डीघा बरदहिया बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर उम्र करीब 24 वर्ष
2. राहुल कुमार पुत्र रामबचन निवासी ग्राम शिवापार पोस्ट चन्द्रधर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर उम्र करीब 21 वर्ष

बरामदगी:-

1. घटना में प्रयुक्त आला कतल एक अदद छूरा
2. घटना के समय अभियुक्त संदीप उर्फ विक्की द्वारा पहने गये रक्त रंजित जींस पैन्ट व टी शर्ट

गिरफ्तारी का स्थान

नेवास चौराहा

गिरफ्तारी व बरामदगी का दिनांक

दिनांक 10.10.2020 समय करीब 06.10 बजे सुबह

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. संतोष कुमार यादव प्रभारी निरीक्षक थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
2. व030नि0 देवेन्द्र लाल थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 अजय कुमार श्रीवास्तव थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
4. उ0नि0 राजकुमार थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर

5. का0 धनन्जय सिंह थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
6. का0 सत्य प्रकाश यादव थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर